


**TRUTH
CENTERED
TRANSFORMATION**

MODULE 1



सम्पूर्ण सेवकाई का परिचय

दृश्य सहायता सामग्री

विषय वस्तु

पाठ 1: संपूर्ण कथा

- तीन संबंध (चार चित्र: सृष्टि, पतन, पुनः स्थापना, वापसी) – प्रत्येक की एक प्रति बनाएँ।
- आदम और हव्वा की लघु नाटिका – स्वयं-सेवकों को देने के लिए 2 प्रतियां बनायें।


पाठ 3: परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से प्रेम करें

- प्रचारक की लघु नाटिका – स्वयं-सेवकों को देने के लिए 3 प्रतियां बनायें।


पाठ 7: राज्य का गणित

- सेट 1 - यशायाह 40:29 (एक सेट कक्षा के लिए)
- सेट 2 – पाँच रोटी, दो मछलियाँ (एक सेट प्रति समूह)
- सेट 3 – एल्लियाह और विधवा (एक सेट प्रति समूह)
- सेट 4 – विधवा और दो सिक्के (एक सेट प्रति समूह)
- सेट 5 – तोड़ों का दृष्टांत (एक सेट प्रति समूह)


चित्र 1: सृष्टि




चित्र 2: पतन



चित्र 3: क्रूस



चित्र 4: वापसी



पाठ 1: आदम और हव्वा की लघु नाटिका

"आदम और हव्वा के बीच एक वार्तालाप"

आदम: (बागवानी करते हुए) हव्वा, बगीचे में काम करना निश्चित रूप से कठिन हो गया है क्योंकि हमने उस फल को खाने से परमेश्वर को दुख पहुँचाया है!

हव्वा: हाँ, और हमारे लड़के भी आपस में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं। वे बहस करते हैं और हर समय एक-दूसरे से मार-पीट करते रहते हैं। आशा करती हूँ कि हालात और बदतर न हों! और ये मुए अंजीर के पत्ते मुझे पहनने पड़ रहे हैं। कितने बदसूरत हैं ये!

आदम: (बहस करते हुए) ठीक है, हम नए कपड़े नहीं खरीद सकते, इसलिए शिकायत मत करो!... (विराम) मुझे पुराने दिनों की बहुत याद आती है, जब परमेश्वर हमारे साथ चलता था और हमारे साथ बातें करता था। अब उसे हमारे आसपास होने से भी तकलीफ होती है। और याद करो कि जानवर हमारी आज्ञा कैसे मानते थे? अब वे हमसे डर कर भागते हैं!

हव्वा: हाँ, या फिर वे हमें काटने की कोशिश करते हैं! ऊँह...! मुझे साँप से नफरत है! मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने एक साँप से सलाह ली है! यह सारी गड़बड़ साँप की गलती है!

आदम: नहीं, यह सारी तुम्हारी गलती है! तुम कभी भी सही काम नहीं करती हो! मैं एक ऐसे व्यक्ति से सलाह क्यों लूँ जो साँप से सलाह लेकर बैठा हो?

हव्वा: हाँ, अब मुझे दोष मत दो। यह तुम्हारी गलती है! (रुककर, दुखी होकर) मुझे खेद है। यह चीखना-चिल्लाना मददगार नहीं है। आदम, क्या तुमको लगता है कि चीजें कभी वैसी होंगी जैसी वे हुआ करती थीं?


आदम: मुझे नहीं पता केवल परमेश्वर ही इस गड़बड़ को ठीक कर सकता है!

हव्वा: ओह, नहीं-अब क्या हुआ? (चिल्लाते हुए, बाहर दौड़ते हुए) तुम दोनों लड़कों लड़ना बंद करो! इसको अभी रोक दो। सुना तुम दोनों ने? मैं अभी तुम्हारे पिता को बताने जा रही हूँ, और वह बिलकुल भी खुश नहीं होगा!

आदम: (बगीचे में लौटते हुए, आह भरते हुए) काम, काम, काम, काम, काम, काम ...

पाठ 3: प्रचारक का लघु नाटिका

कथावाचक का परिचय: कभी-कभी मसीहियों के पास "सुसमाचार का सीमित दृष्टिकोण" होता है। वे समझते हैं कि यीशु को स्वीकार करना जीवन और मृत्यु का निर्णय है, लेकिन वे कुछ और नहीं समझ पाते। जब वे अपने पड़ोसी की ज़रूरतों को नहीं देख पाते, तब उनका संदेश वास्तव में नष्ट हो जाता है। [विराम] आज, हम एक बहुत निर्धन घर में जाएंगे। उस घर का एकमात्र निवासी, जो एक निर्धन और बीमार व्यक्ति है और बिस्तर पर है। एक आगंतुक, मसीही प्रचारक जो घर-घर जाकर सेवकाई करते हैं, अभी-अभी पहुंचे है।



प्रचारक: नमस्कार, नमस्कार! कोई घर पर है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? (प्रवेश करता है)

निर्धन बीमार व्यक्ति: (कमज़ोर आवाज़ में) मैं यहाँ हूँ ...

प्रचारक: नमस्कार। मेरा नाम _____ है और मैं _____ कलीसिया से हूँ। मैं आज सब को अपनी कलीसिया में आने का निमंत्रण देने आया हूँ। प्रभु हमें प्रभावशाली जागृति से आशिषित कर रहे हैं। आप इस से वंचित नहीं रहना चाहेंगे।

निर्धन बीमार व्यक्ति : (करहाते हुए, रुक-रुक कर बोलता है) मैं नहीं आ सकता ... मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता ... मैं बीमारी के कारण हिल-डुल नहीं सकता ... मेरी नौकरी भी चली गई ... दवाई... या भोजन... या किराया... के लिए कोई पैसा नहीं है।

प्रचारक: ये तो काफी गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास जीवन की सभी समस्याओं का उत्तर है। क्या आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है?

निर्धन बीमार व्यक्ति : (कमज़ोर आवाज़ में) जब मैं बीमार हुआ और अपनी नौकरी खो दी तब मेरे परिवार और दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया... क्या आपकी कलीसिया से कोई मेरी मदद कर सकता है? कृप्या?

प्रचारक: आपको जो सबसे अच्छी मदद मिल सकती है, वह यहीं इस छोटे से पर्चे में है। इस में आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के विषय में समझाया गया है। क्या आप जानते हैं, आप जो इस समय बिस्तर पर हैं यह उसकी इच्छा नहीं है! इसे लें, इसे पढ़ें, पापियों के लिए जो प्रार्थना दी गई है उसे करें, और विश्वास करें!

निर्धन बीमार व्यक्ति:(कमज़ोरी से) मैं नहीं कर सकता ... मैं बहुत कमज़ोर हूँ ... (बात करना बंद करता है, गतिहीन हो जाता है)

प्रचारक: (नब्बड़ देखता है) अभी जीवित है! परमेश्वर की स्तुति हो, मैं प्रचार करने के लिए समय पर पहुंच गया! मैं पर्चे को यहाँ छोड़ दूंगा। मुझे यहाँ से चलना चाहिए ताकि मैं अन्य खोई हुई आत्माओं के बीच सेवा कर सकूँ। (निर्धन बीमार व्यक्ति के कान में ज़ोर से बोलता है) हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखें कि यीशु ही उत्तर है। (चला जाता है)

निर्धन बीमार व्यक्ति: (उसे जाता देख कर करहाता है) ... ओहहह


(और कुछ न करें - या वह करें जो उचित है)


हेभारो

विश्रामा

आमो

परमेश्वर






5 रोटियां



2 मछलियां



स्त्रियों और बच्चों के लिए भोजन



5000 पुरुषों के लिए भोजन



परमेश्वर



12 टोकरियां



+

+

+

+

=

X


लड़का



1 रोटी



1 रोटी



विधवा



विधवा, लड़का
और एल्लियाह



=

X

=

परमेश्वर



3285 रोटियां



3 वर्ष

365 दिन

+

X

X

X

परमेश्वर



2 सिक्के



विधवा



2000 वर्षों से

ज़्यादा कि प्रेरणा

X


+

=

सेवक



1 तोड़ा



0 (कुछ न
करना)

0 वृद्धि

अंधकार में डाला
गया सेवक



+

X

+

=